



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 01 जुलाई 2014

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	01-07-14	02-07-14	03-07-14	04-07-14	05-07-14
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	38	37	37	37	36
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	28	26	28	27	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	4	2	4	2
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	60	58	60	62	60
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	38	39	38	31	28
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	28	28	25	19	20
हवा की दिशा	दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह :

खरीफ की फसल बाजरा, मूंग, मोठ व ग्वार की बुवाई के लिए निम्न किस्मों की सिफारिश की जाती है।

**बाजरा :-** आर.एच.बी 177, आई.सी.टी.पी. 8203, आर.एच.बी 121, आर.एच.बी 173, आर.एच.बी 154, जी.एच.बी. 538, एच.एच.बी 67(इम्पूब्ड)

**मूंग :-** के 851, आर.एम.जी 62, आर.एम.जी 268, आर.एम.जी 344, एस.एम.एल 668

**मोठ :-** आर.एम.ओ 40, आर.एम.ओ 435, आर.एम.ओ 257, आर.एम.ओ 225, सी.जेड. एम 2, काजरी मोठ.2

**ग्वार :-** आर.जी.सी 936, आर.जी.सी 1002, आर.जी.सी 1003, आर.जी.सी 1017, आर.जी.एम 112

बीज जनित रोगों से बचाव के लिये बीज को 4-8 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 3 ग्राम थाइरम या 2 ग्राम कार्बेण्डेजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोयें।

कपास की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें व खरपतवार निकालें।

पपीते के पौधे की रोपाई करने का भी यह उचित समय है गढडे में रोपाई से पुर्व सडी हुई गोबर की खाद, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट व 50 ग्राम क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण मिलाये।

जिन किसान भाईयों को मानसून में फलदार पौधे लगाने है वे खेत में गढडे खोद कर खाद व दीमक की दवाई मिलाकर तैयार कर ले तथा वर्षा आने पर फलदार पाधे लगावें। जलवायु के अनुसार आंवला, बेर, अनार, गुंदा, नींब, करौदा और बिलपत्र आदि उगाये जा सकते है।

बरसात से पहले अपने पशुओं को गलघोंटू व लंगड़ा बुखार रोग के टीके अवश्य लगवा लें। पशुओं को 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण व 20 ग्राम नमक रोजाना दें।